

VATSALYA SR. SEC. SCHOOL, VIDISHA
PRIMARY SECTION
MAY PLANNER

CLASS:- 4

SUBJECT:- हिंदी

पाठ :-1

पाठ का नाम:- मन के भोले-भाले

बादल

➤ **कठिन शब्द:-**

क्र.	शब्द	क्र.	शब्द
1	आसमान	6	तूफ़ान
2	भोले-भाले	7	कूबड़
3	जोकर	8	गुब्बारे
4	परियाँ	9	सूंड
5	ढोलक	10	मतवाले

➤ **शब्दार्थ:-**

क्र.	शब्द	शब्दार्थ
1	वायु	हवा
2	चाँद	चंद्रमा
3	जिद्दी	हठ करने वाला
4	झूम- झूम	मस्त होकर
5	भोला-भाला	सीधा-सादा

➤ **निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-**

1. आसमान में बादल कैसे दौड़ रहे हैं?

उत्तर:- आसमान में बादल झूम-झूम कर दौड़ रहे हैं।

2. बादल अपने थैलों से क्या बरसाते हैं?

उत्तर:- बादल अपने थैलों से झर-झर पानी बरसाते हैं।

3. बादल किन-किन रंगों के होते हैं?

उत्तर:- बादल काले, स्लेटी, सफ़ेद व हल्के आसमानी रंगों के होते हैं।

4. साल में किन-किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं?

उत्तर:- साल में सावन और भादों के महीने में ज्यादा बादल छाते हैं।

➤ सही जोड़ी मिलाइए:-

क्र.	स्तम्भ "अ"	स्तम्भ "ब"
1	बादलों के थैले	अधिक वर्षा (6)
2	जोकर	झर-झर पानी (1)
3	हाथी	पंख (5)
4	ऊँट	सूंड (3)
5	परियाँ	तोंद (2)
6	जिद्दी बादल	कूबड़ (4)

VATSALYA SR. SEC. SCHOOL, VIDISHA
PRIMARY SECTION
MAY PLANNER

CLASS:- 4

SUBJECT:- हिंदी

पाठ :-2

पाठ का नाम:- जैसा सवाल वैसा जवाब

➤ **कठिन शब्द:-**

क्र.	शब्द	क्र.	शब्द
1	बादशाह	6	अचकन
2	अकबर	7	आबादी
3	विश्वास	8	ख्वाजासरा
4	जहाँपनाह	9	मंत्री
5	अभिमान	10	संतोषजनक

➤ **शब्दार्थ:-**

क्र.	शब्द	शब्दार्थ
1	संदेह	शक
2	विद्या	ज्ञान
3	अनुरोध	विनती
4	मुसीबत	आफ़त
5	आबादी	जनसंख्या

➤ **निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-**

1. बीरबल कौन था? बादशाह अकबर उन्हें क्यों पसंद करते थे?

उत्तर:- बीरबल, बादशाह अकबर के मंत्री थे। वे बुद्धिमान थे इसलिए अकबर उन्हें पसंद किया करते थे।

2. किसको अपनी बुद्धि पर अभिमान था?

उत्तर:- ख्वाजासरा को अपनी बुद्धि पर अभिमान था।

3. अकबर के खास दरबारी का नाम क्या था?

उत्तर:- अकबर के खास दरबारी का नाम ख्वाजासरा था।

4. बीरबल के बारे में ख्वाजासरा की क्या धारणा थी?

उत्तर:- ख्वाजासरा बीरबल को अपने सामने मूर्ख समझते थे।

5. आसमान में तारों की संख्या का बीरबल ने क्या जवाब दिया?

उत्तर:- आसमान के तारों की संख्या का बीरबल ने जवाब दिया की आसमान में उतने ही तारे हैं जितने भेड़ के शरीर पर बाल हैं।

➤ खाली स्थान भरिए:-

1. आज तो मैं चल-चल कर थक गया।

2. बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर थे।

3. ख्वाजासरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिन्दुस्तान से ही निकाल देते।

4. मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ।



VATSALYA SR. SEC. SCHOOL, VIDISHA
PRIMARY SECTION
MAY PLANNER

CLASS:- 4

SUBJECT:- हिंदी

पाठ :-3

पाठ का नाम:- किरमिच की गेंद

➤ **कठिन शब्द:-**

क्र.	शब्द	क्र.	शब्द
1	चक्कर	6	मजबूत
2	खिड़कियाँ	7	सबूत
3	वस्तु	8	क्लब
4	जालीदार	9	क्यारी
5	आरंभ	10	ईमानदारी

➤ **शब्दार्थ:-**

क्र.	शब्द	शब्दार्थ
1	लू	गर्म हवा
2	आरंभ करना	शुरू करना, प्रारंभ करना
3	सबूत	प्रमाण
4	वृक्ष	पेड़
5	निशान	चिह्न

➤ **निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-**

1. दिनेश बगीचे की तरफ क्यों भागा?

उत्तर:- दिनेश धम्म की आवाज सुनकर बगीचे की तरफ भागा।

2. दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था?

उत्तर:- दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था।

3. खेलते-खेलते गेंद कहाँ चली गई?

उत्तर:- खेलते-खेलते गेंद स्कूटर में सामान रखने वाली जालीदार टोकरी में चली गई।

4. बच्चे कैसे किस तरह इकट्ठा किया करते थे?

उत्तर:- बच्चे क्लब का चंदा देकर कैसे इकट्ठा किया करते थे।

5. क्लब में सब बच्चों के इकट्ठा होने पर दिनेश ने उनसे क्या कहा?

उत्तर:- क्लब में सब बच्चों के इकट्ठा होने पर दिनेश ने उनसे कहा - “मुझे एक गेंद मिली है, गेंद की पहचान बताकर आप वह गेंद मुझसे ले सकते हो।”

➤ अंतर बताओ:-

1. पेड़, पौधा

- पेड़: पेड़ मजबूत और बड़ा होता है।
- पौधा: पौधा छोटा और कमजोर होता है।



2. तना, टहनी

- तना: जमीन के ऊपर पेड़ का मुख्य भाग (मोटा भाग) तना कहलाता है।
- टहनी: पेड़ के तने से टहनियाँ निकलती हैं टहनी से पत्तियाँ निकलती हैं।

➤ सखी को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र

स्मृति भवन,

हरिपुरा,

विदिशा {मध्य प्रदेश}

दिनांक : 27 मई 2020

प्रिय सखी,

नमस्कार।

मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी कुशलता से होगी। तुम्हें यह जानकर हर्ष होगा कि सात दिसंबर को प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रही हूँ। जन्मदिन पर बहुत से खेलों का आयोजन किया गया है। मेरी अन्य कई सहलियाँ भी आएँगी। मिलजुल कर हम सब इस दिन को और मनोरंजक बनाएँगे। इस अवसर पर प्रीतिभोज भी रखा गया है। उत्सव शाम 6 बजे से आरंभ होगा।

आशा है इस अवसर पर तुम आकर मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाओगी। घर पर सबको मेरा प्रणाम।

तुम्हारी सखी,

क ख ग